



# सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

## असाधारण

विधायी परिशिष्ट  
भाग-4, खण्ड (ख)  
(परिनियत आदेश)

लखनऊ, शुक्रवार, 30 अगस्त, 2024

भाद्रपद 8, 1946 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

गृह (गोपन) अनुभाग-5

संख्या B.S.-26/2024-सी०एक्स०-5

लखनऊ, 30 अगस्त, 2024

अधिसूचना

प0आ0-227

गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं० का० आ०-924(अ), दिनांक 27 फरवरी, 2024 द्वारा विधि विरुद्ध क्रिया कलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 (1967 का 37) की धारा 3 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जमाते-ए-इस्लामी, जम्मू एण्ड कश्मीर (जेईआई) को "विधि विरुद्ध संगठन" घोषित किया गया है। यह अधिसूचना सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से पाँच वर्ष के लिए लागू होगी।

2-उक्त के साथ ही अधिसूचना सं० का० आ०-924(अ), दिनांक 27 फरवरी, 2024 के आलोक में गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्गत अधिसूचना सं० का० आ०-1185(अ), दिनांक 8 मार्च, 2024 द्वारा पूर्वोक्त विधि विरुद्ध संगठन के सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार द्वारा विधि विरुद्ध क्रिया कलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा 42 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधिनियम की धारा 7 एवं 8 के अन्तर्गत प्रयोग की जाने वाली सभी शक्तियों का प्रयोग राज्य सरकार द्वारा किया जाना प्राधिकृत किया गया है।

3-उक्त के साथ ही गृह मंत्रालय, भारत सरकार के आदेश संख्या 14017/17/2024-NI-MFO दिनांक 11 मार्च, 2024 (छायाप्रति संलग्न) के द्वारा संसूचित किया गया है कि राज्य सरकार लिखित में आदेश द्वारा निदेश दे सकेगी कि कोई शक्ति जो उसके द्वारा प्रयोग के लिए निदेशित है, ऐसी परिस्थितियों और शर्तों के अन्तर्गत जैसा कि निदेश में विनिर्दिष्ट हो, यथा स्थिति राज्य सरकार के किसी अधीनस्थ व्यक्ति द्वारा भी प्रयोग की जायेगी।

भारत सरकार के उक्त आदेश संख्या 14017/17/2024-NI-MFO दिनांक 11 मार्च, 2024 द्वारा उपरोक्त वर्णित प्रत्यायोजित शक्तियों का प्रयोग राज्य सरकार के अन्तर्गत समस्त पुलिस आयुक्तों तथा जिला मजिस्ट्रेट्स द्वारा किया जायेगा।

अतः इस सम्बन्ध में एतद्वारा समस्त पुलिस आयुक्तों तथा जिला मजिस्ट्रेट्स को निर्देशित किया जाता है कि उक्त प्रत्यायोजित शक्तियों का तदनुसार प्रयोग किया जाना सुनिश्चित किया जाय।

आज्ञा से,  
डा० संजीव गुप्ता,  
सचिव।

